



INDIAN SCHOOL AL WADI AL KABIR
Worksheet-11 Hindi 2nd language (Winter-Break)
(यण संधि, विज्ञापन)

Name-

Class-8

Sec----

Date-----

प्र-1- संधि विच्छेद कीजिए |

अत्यंत	----- + -----	इत्यादि	----- + -----
प्रत्युत्तर	----- + -----	यद्यपि	----- + -----
स्वच्छ	----- + -----	अन्वय	----- + -----
पित्राज्ञा	----- + -----	मात्रिच्छा	----- + -----
व्याप्त	----- + -----	व्यूह	----- + -----
प्रत्येक	----- + -----	मात्रादेश	----- + -----

प्र-2 - संधि कीजिए |

नि + ऊन	-----	नदी + अर्पण	-----
पितृ + अर्पण	-----	अभि + आगत	-----
अति + अधिक	-----	उपरि + उक्त	-----
वधू + आगमन	-----	प्रति + ऊष	-----
सु + आगत	-----	अनु + ऐषक	-----
अनु + एषण	-----	पितृ + उपदेश	-----

प्र-3- संधि विच्छेद कीजिए |

विद्यालय	----- + -----	विद्यार्थी	----- + -----
नदीश	----- + -----	कवीन्द्र	----- + -----
भानूदय	----- + -----	भूद्धार	----- + -----
सूर्योदय	----- + -----	महर्षि	----- + -----
प्रश्नोत्तर	----- + -----	लंकेश	----- + -----
राजेश	----- + -----	सुरेश	----- + -----
यथैव	----- + -----	महौज	----- + -----

P.T.O.

प्र- 4- बालों में लगाने वाले तेल के लिए आकर्षक एवं रंगीन **विज्ञापन** तैयार कीजिए।



INDIAN SCHOOL AL WADI AL KABIR

Worksheet-12- Hindi 2nd language **(Winter Break)**

(अर्थग्रहण)

Name-

Class-8

Sec----

Date-----

प्र-1- नीचे दिए गए गद्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक हैं। व्यायाम करने का ढंग भी होता है। इसे करते समय सदा कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु, प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। व्यायाम के अनेक लाभ हैं - इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है, भोजन ठीक से पचता है, शरीर पुष्ट बन जाता है, थकान कम अनुभव होती है तथा मष्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।

क - किस तरह का मनुष्य सुखमय जीवन जी सकता है?

Ans. -----

ख- शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन-कौन से उपाय करने चाहिए?

Ans. -----

ग- व्यायाम करते समय सबसे पहली सावधानी कौन-सी बरतनी चाहिए?

Ans. -----

घ- व्यायाम करने से कौन-कौन लाभ मिलते हैं?

Ans. -----

च- गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए ।

Ans. -----

छ - 'निश्चित' और 'पौष्टिक' शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए।

Ans. -----